

प्रेस नोट

आज दिनांक 13.02.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के गैंगेस्टर व धोखाधड़ी के कई मामलों में वांछित शातिर अपराधी मनीष पाण्डेय को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 13.02.2021 को थाना चेतगंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना चेतगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2020 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त व शातिर अपराधी मनीष पाण्डेय पुत्र छोटे लाल पाण्डेय निवासी सी 24/170 गणेश महाल थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी को पहड़िया स्थित हीरो शोरूम के पास से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चेतगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मनीष पाण्डेय पुत्र छोटे लाल पाण्डेय निवासी सी 24/170 गणेश महाल थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी उम्र करीब 36 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 39/19 धारा 419/420 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 79/19 धारा 406/420 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी ।
3. मु0अ0सं0 213/19 धारा 419/420/406/506 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी ।
4. मु0अ0सं0 38/20 धारा 406/420 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी ।
5. मु0अ0सं0 59/20 धारा 406/420 भादवि थाना चेतगंज जनपद वाराणसी ।
6. मु0अ0सं0 210/20 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना चेतगंज जनपद वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक संध्या सिंह, व0उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह, उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह, उ0नि0 मिथिलेश यादव, का0चा0 विजय कुमार सिंह थाना चेतगंज वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 73/2021 दिनांक: फरवरी, 13/2021

प्रेस नोट

दिनांक 11.02.2021 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0059/2021 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में नामित अभियुक्त आरक्षी ना0पु0 अवधेश पाल के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर मा0 न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल में निरुद्ध होने, अपने कृत्यों से पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता, अकर्मण्यता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में आज दिनांक 13.02.2021 को पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 13.02.2021 को थाना जंसा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0025/2021 धारा 376/342/506/120(बी) भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पारस बनवासी पुत्र गोकुल निवासी ग्राम-जगदीशपुर (धरसौना) थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी उम्र 36 वर्ष को अकेलवा चौराहे के पास से समय करीब 14.15 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जंसा पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पारस बनवासी पुत्र गोकुल निवासी ग्राम-जगदीशपुर (धरसौना) थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी उम्र 36 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, हे0का0 कन्हैया राम व का0 अखिलेश कुमार थाना जंसा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 75/2021 दिनांक: फरवरी, 13/2021

प्रेस नोट

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *‘मिशन शक्ति’* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 13.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 192 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 6807 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 631 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 186 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1720 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 03 शोहदे के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही व 76 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।